

## ‘अखिल भारतीय श्री कन्याकुब्ज प्रतिनिधि सभा’ कार्यकारिणी की बैठक

### दिनांक 15 अगस्त 2021 की कार्यवाही-रिपोर्ट

कार्यकारिणी की बैठक माननीय श्री डी के त्रिवेदी (न्याय मूर्ति) के आवास पर हुई। मीटिंग में अधोलिखित पदाधिकारी/सदस्य उपस्थित हुये-

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी के त्रिवेदी	अध्यक्ष
डा डी एस शुक्ला	उपाध्यक्ष एवं संपादक ‘कान्यकुब्ज-वाणी’
सी ए श्री निशीथ द्विवेदी	उपाध्यक्ष
श्री आर पी अवस्थी	महासचिव
श्री कृपा शंकर दीक्षित	उपसचिव
श्री राकेश शुक्ल	वरिष्ठ जर्नलिस्ट एवं मीडिया सलाहकार
डा वी के मिश्रा	वरिष्ठ सदस्य
श्री धीरेन्द्र दीक्षित	सदस्य

#### कार्यवाही-

मीटिंग में पिछली बैठक में लिए निर्णयों की पुष्टि की गई।

महासचिव ने कृत कार्यवाही से कार्यकारिणी को अवगत कराया।

कोषाध्यक्ष श्री ए के त्रिपाठी जी के शहर से बाहर होने के कारण कुछ परिपत्रों की अन उपलब्धता से कुछ बिन्दुओं पर विचार नहीं हो सका। अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि कोषाध्यक्ष जी के वापस लौटने के बाद, महासचिव, कोषाध्यक्ष और सी ए श्री निशीथ कि एक बैठक अध्यक्ष जी की उपस्थिति में होगी। महासचिव जी से भी अपेक्षा की गई कि वह सारे परिपत्र, रजिस्तर व रसीदों को ससमय एकत्र कर मीटिंग के दिन साथ लाएँगे।

श्री धीरेन्द्र ने अपना चित्र और बायोडेटा उपलब्ध कर दिया, जिसे शीघ्र ही अप –लोड कर दिया जाएगा। श्री राकेश शुक्ल ने बायोडेटा व्हाट्स एप द्वारा भेजने का वायदा किया है।

निकट भूत में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देकर सभा की बैठक समाप्त हुई।

**विशेष-** अध्यक्ष जी के यहाँ सावन माह की विशेष ‘मक्के की डिश’ व सावन मास की प्रसिद्ध ‘घेवर’ व एक अन्य विशिष्ट मिष्ठान्न को सदस्यों ने बहुत सराहा।

अगली आन-लाइन मीट का दिन व समय कोषाध्यक्ष की मीटिंग के बाद सूचित किया जाएगा।

इस बीच में कोरोना-रोधी नियमों का पालन कर आपनो और दूसरों को सुरक्षित रखें। रिश्तों से जुड़ने और जोड़ने का प्रयास करते रहें।

धन्यवाद